

**समाज में स्वैच्छिक रक्तदान की भावना को जागृत करने की आवश्यकता है - राज्यपाल**

लखनऊ: 7 दिसम्बर, 2018

उत्तर प्रदेश के राज्यपाल श्री राम नाईक ने आज प्रणय टावर निकट बापू भवन स्थित एच०डी०एफ०सी० बैंक शाखा द्वारा आयोजित रक्तदान शिविर का उद्घाटन किया। इस अवसर पर राज्यपाल के अपर मुख्य सचिव श्री हेमन्त राव, एच०डी०एफ०सी० बैंक के राज्य प्रमुख संचालक श्री मधु गुप्ता, शाखा प्रमुख श्री संजीव कुमार और विभिन्न शाखाओं के अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित थे।

राज्यपाल ने उद्घाटन के उपरान्त अपने विचार व्यक्त करते हुये कहा कि रक्तदान एक महान कार्य है जो जाति और मजहब से परे है। समाज में स्वैच्छिक रक्तदान की भावना को जागृत करने की आवश्यकता है। रक्तदान में दिया गया रक्त किसी रोगी के लिये जीवन बन सकता है। जब हमें रक्त की जरूरत होती है तब हम यह नहीं देखते कि खून देने वाला व्यक्ति किस धर्म एवं समुदाय का है। उन्होंने कहा कि एच०डी०एफ०सी० बैंक द्वारा आयोजित रक्तदान शिविर वास्तव में अभिनन्दनीय है।

श्री नाईक ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुये कहा कि वर्ष 2007 से एच०डी०एफ०सी० बैंक पूरे देश में रक्तदान शिविर का आयोजन करता आ रहा है। बैंक ने अपनी इस यात्रा की शुरुआत मात्र 88 शिविरों से की थी जो इस वर्ष बढ़कर 3,117 हो गयी है। पिछले वर्ष बैंक ने 3,045 शिविरों के माध्यम से 2 लाख से ज्यादा यूनिट रक्त एकत्र किया था। उन्होंने कहा कि यह संयोग है कि एच०डी०एफ०सी० बैंक द्वारा सशस्त्र सेना झण्डा दिवस के दिन रक्तदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है।

इस अवसर पर एच०डी०एफ०सी० बैंक के राज्य प्रमुख संचालक श्री मधु गुप्ता ने स्वागत उद्बोधन दिया तथा शाखा प्रमुख श्री संजीव कुमार ने धन्यवाद ज्ञापित किया।

-----

अंजुम/ललित/राजभवन (478/9)

